



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2147]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939

No. 2147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

रेल मंत्रालय

(मेट्रो रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 19 जुलाई, 2017

का.आ. 2446(अ).—केंद्रीय सरकार की राय है कि लोक प्रयोजन के लिए कोलकाता शहर, सॉल्ट लेक एवं हावड़ा में सॉल्ट लेक, सेक्टर-V से हावड़ा मैदान तक मेट्रो रेलवे के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य संकर्म आवश्यक एवं समीचीन हैं।

और जबकि, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सम्यक सतर्कता बरती जाए जिससे कि कोलकाता शहर स्थित ब्रेबॉर्न रोड से होते हुए हुगली नदी के पूर्वी किनारे से लालदीघी के किनारे स्थित महाकरण तक मेट्रो रेलवे के निर्माण के कारण भूमि, भवन, गली, सड़क, रास्ते आदि के स्वामी या अधिभोगियों को न्यूनतम असुविधा या कठिनाई का सामना करना पड़े।

और उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र की योजना का निरीक्षण प्रबंध निदेशक, कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय लोक उपक्रम, के कार्यालय में किया जा सकेगा।

अतः अब केंद्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1979 (1978 का 33) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यह निदेश देती है कि संबंधित भवनों अथवा उनके समीप स्थित स्थलों के नीचे भूमिगत रेल के निर्माण के लिए सुरंग बोरिंग मशीनों के गुजरने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुसूची में उल्लिखित भवनों के निवासियों एवं वहां स्थित व्यवसायिक इकाइयों को अस्थायी तौर पर खाली कराया जाएगा। उक्त भवनों के निवासियों को निःशुल्क अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अस्थायी निष्क्रमण की अवधि एवं उनके पते की संसूचना निवासियों को यथावश्यकतानुसार दी जाएगी।

प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (5) में यथा-विनिर्दिष्ट, इन निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

अनुसूची

क्र.सं	भवन का नाम	पता
1	होटल यात्रिक	42, एन.एस.रोड, 42 स्ट्रैण्ड रोड,
2	भवन/कन्हैयालाल त्रिजमोहन हाऊस एन.2	2, राजा वुड माउंट स्ट्रीट/ 40बी, स्ट्रैण्ड रोड/40सी, स्ट्रैण्ड रोड 40 डी, स्ट्रैण्ड रोड.
3	भवन	4, राजा वुड माउंट स्ट्रीट 40/5, स्ट्रैण्ड रोड/39, स्ट्रैण्ड रोड.
4	उषा मार्टिन	6/8, राजा वुड माउंट स्ट्रीट, 97, एन.एस रोड नंगर पट्टी,
5	बजाज इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	12/18, राजा वुड माउंट स्ट्रीट 14, राजा वुड माउंट स्ट्रीट
6	भवन	22, राजा वुड माउंट स्ट्रीट
7	दत्ता भवन/बीपी ट्रेडिंग एंड कं.	103, पुरुषोत्तम राय स्ट्रीट/ 103 एन.एस रोड/101 एन.एस रोड/ 24, राजा वुड माउंट स्ट्रीट.
8	भवन	44/45, अर्मेनियम स्ट्रीट
9	हल्दीराम प्रभुजी	पी8, ब्रेबॉर्न रोड/ 8, जैक्सन लेन
10	एवरेस्ट मेटल इंजीनियरिंग	111/ए, एन.एस.रोड, 111/सी, एन.एस.रोड, 111/, एन.एस.रोड, 105, एन.एस.रोड,

[फा. सं. एमआरटीएस/डब्लू-30/43/डीएमआरसी-केएमआरसी/भाग-II]

वी. के. पंजियार, मुख्य इंजीनियर/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Metro Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 19th July, 2017

S.O. 2446(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient for facilitating the construction of Metro Railway from Salt Lake Sector-V to Howrah Maidan in the city of Kolkata, Salt Lake and Howrah and other works connected therewith for public purpose.

And whereas the Central Government is satisfied that due care has been taken so that minimum inconvenience and hardship are caused to the owners or occupiers of the land, building, street, road, passage etc. for construction of Metro Railway from east bank of river Hooghly along Brabourne Road upto Mahakaran Station besides Laldighi in the city of Kolkata.

And whereas the building area mentioned in the enclosed schedule may be inspected in the office of the Managing Director, Kolkata Metro Rail Corporation Limited, a Central Public Sector Enterprise under Ministry of Railways.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby directs under

clause (b) of sub-section 1) of Section 21 of the said Act, that the residents and people of business units located in the buildings mentioned in the Schedule shall be evacuated temporarily for safety measure during passage of Tunnel Boring Machines for construction of underground metro Railway below the respective buildings or in the near vicinity. The residents of the said building shall be provided with temporary accommodation free of cost. The duration of temporary evacuation and the address for the same shall be communicated to the residents as and when required.

Every person shall be bound to comply with the directions, as specified in sub-section (5) of section 21 of the said Act.

SCHEDULE

Sl. N.	Name of building	Address
1.	Hotel Jatrik	42, N. S. Road/42, Strand Road.
2.	Building/Kanhaiyalal Brijmohan House N.2	2, Raja Woodmunt Street/ 40B, Strand Road/40C, Strand Road/ 40D, Strand Road.
3.	Building	4, Raja Woodmunt Street/ 40/5, Strand Road/39, Strand Road.
4.	Usha Martin	6/8, Raja Woodmunt Street, 97, N. S. Road Nangar Patti.
5.	Balaji Industrial Company Ltd.	12/18, Raja Woodmunt Street/ 14, Raja Woodmunt Street.
6.	Building	22, Raja Woodmunt Street.
7.	Dutta Bhaban/BP Trading & Co.	103, Purushottom Roy St./ 103 NS Road/101 N.S. Road/ 24, Raja Woodmunt Street.
8.	Building	44/45, Armenium Street.
9.	Haldiram Prabhuji	P8, Brabourne Road/ 8, Jackson lane
10.	Everest Metal Engineering	111/A, N. S. Road, 111/C, N. S. Road, 111, N. S. Road, 105, N. S. Road.

[F. No. MRTS/W-30/43/DMRC-KMRC/Pt.-II]

V. K. PANJIAR, Chief Engineer/Con.